

कोर्स में शामिल होने के निर्देश

कोर्स का ध्येय :- सिपाही से अधीनस्थ अधिकारियों को मानसिक रूप से सुदृढ बनाना है ताकि वे परिचालनिक गतिविधियों के दौरान एक सक्षम विश्वासी और कुशल सैनिक के रूप में अपनी ड्यूटी का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकें ।

(A) **उद्देश्य :-**

- 1) शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाना ।
- 2) सभी प्रकार के भू-भाग पर नेवीगेट करने में प्रवीण बनाना ।
- 3) युक्तिपूर्वक तरीके से जमीन का इस्तेमाल करने में माहिर बनाना ।
- 4) जंगल क्राफ्ट तथा जंगल की लड़ाई में माहिर बनाना ।
- 5) विभिन्न प्रकार के फायरिंग में दक्ष बनाना ।
- 6) विस्फोटक के बारे में बुनियादी जानकारी तथा उसको पहचान, खोजने तथा बर्बाद करने में दक्ष बनाना ।

B) **योग्यता :-**

- 1) प्रशिक्षु की चिकित्सा श्रेणी - शेप - 1 हो ।
- 2) सिपाही से निरीक्षक तक - 45 वर्ष तक की अधिकतम आयु हो ।
- 3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र हो ।

C) **अवधि :-** इस कोर्स की अवधि 04 सप्ताह की होगी । सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण शुरू होने से 02 दिन पहले संस्थान में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि प्रशिक्षण / कोर्स से संबन्धित औपचारिकताएँ समय पर पूर्ण हो सकें ।

D) **ड्रेस तथा उपकरण :-** सभी प्रशिक्षु कोर्स से संबन्धित निम्न सामग्री / उपकरण अपने साथ लाना सुनिश्चित करें ।

क. लाईट बेडिंग (मच्छरदानी सहित)

ख. पिटी ड्रेस - 02 जोड़ी, कम्बेट ड्रेस- 02 जोड़ी, जंगल शूज-02 जोड़ी, एंक्लेट - 02 जोड़ी, जुराब- 03 जोड़ी ।

ग. पिटठू

घ. हेवर सेक तथा मैगजीन पोच

(E) **हथियार तथा अम्युनिशन :-** सभी प्रशिक्षुओं को इस कोर्स हेतु हथियार साथ लाना होगा । अम्युनिशन तथा एक्सप्लोसिव इस संस्थान के द्वारा फायरिंग अभ्यास हेतु दिया जाना है ।

(F) **मैस एडवांस :-** सभी प्रशिक्षु को निम्नानुसार मैस एडवांस जमा करना होगा ।

1. अधिनस्थ अधिकारी:- RS.-5000/-

2. अन्य रैंक:- RS.-4000/-

(G) शिवपुरी में आगमन :- शिवपुरी, रेल तथा सड़क मार्ग से समुचित रूप से तथा ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल तथा झांसी से सड़क मार्ग से समुचित रूप से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर तथा झांसी यहां से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है तथा इनकी दूरी यहाँ से क्रमशः 115 किमी तथा 109 किमी है। शिवपुरी में भी रेलवे स्टेशन है तथा यह ग्वालियर-इन्दौर-भोपाल रेलवे खण्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन इस रेल मार्ग पर रेल का आवागमन सीमित संख्या में होती है।

(H) स्थान / स्थिति :- CIAT स्कूल, शिवपुरी रेलवे स्टेशन से 08 किमी की दूरी पर गुना की तरफ NH - 03 पर स्थित है। यह राजमार्ग AB रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्थान GR - 25° 27' 03.77" N तथा 77° 38' 52.95" E तथा समुद्र सतह से 1515 फिट (462 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है।

(I) मौसम :- शिवपुरी कर्क रेखा के समीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा सूखा व शीत ऋतु में ठंडा तथा सूखा मौसम होता है। ग्रीष्म की शुरुआत मध्य अप्रैल माह से होकर मध्य जुलाई माह में समाप्त होती है। इस अवधि में तापमान 45 सेल्सियस तथा इसमें ऊपर भी चला जाता है।

(J) चिकित्सा प्रमाण पत्र :- सभी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोर्स हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से फिट घोषित प्रमाण पत्र अपने वार्षिक मेडिकल जाँच रिपोर्ट के साथ संस्थान में आगमन पर प्रस्तुत करेगा।

(K) प्रशिक्षण से वापसी :-

- क. आवश्यक योग्यतात्मक मानदण्ड (क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट) को पूरा न करने वाले अयोग्य कार्मिको को उनके यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।
- ख. जो प्रशिक्षु चिकित्सीय रूप से अयोग्य अथवा किसी गंभीर रोग से पीडित हो उन्हें कोर्स करने की अनुमति नहीं होगी।
- ग. प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कारण से 03 दिन से अधिक गैर हाजिर होने पर कोर्स से वापस किया जाएगा।
- घ. प्रशिक्षुओ द्वारा किसी भी प्रकार से की गयी अनुशासनहीनता के कारण उन्हें वापस उनके यूनिट भेजा जा सकता है।

(L) छुट्टी :- विशेष परिस्थिति को छोड़कर कोर्स के दौरान किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी।

(M) दस्तावेज :-

- क. संचालन आदेश
- ख. पहचान पत्र
- ग . कोर्स हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र
- घ. हैल्थ कार्ड
- च. वापसी का रेलवे वारंट
- छ. केशलेस भुगतान के लिए एटीएम कार्ड
- ज. 02 पासपोर्ट आकार के फोटो

(N) अन्य :-

1. विलम्ब से रिपोर्ट करनेवाले प्रशिक्षणार्थियों पर कोर्स में शामिल नहीं किया जाएगा।
2. संस्थान के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एयर वाउचर या रेलवे वारंट वापसी के लिए नहीं दिया जाएगा ।
3. विषय वस्तु से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 07492-225700 या Email ID pplciatsvp@crpf.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है ।